

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

(No. 144]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल १६, १९६९/चैत्र २६, १८९१

(No. 144]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 1969/CHAITRA 26, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April 1969

S.O. 1495.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information:—

FORM 7A

List of contesting candidates

[See rule 10(1) of the Conduct of Elections Rules, 1961]

By-election to the House of the people from the 13-Banaskantha Parliamentary Constituency.

Serial No.	Name of candidate	Address of candidate	Symbol allotted
1	2	3	4
1.	Manubhai Amersey	II Floor, Flat No. 3, Laburnum House, Laburnum Road, Walkeshwar, Bombay-5	Star

1	2	3	4
2.	S. K. Patil	Shanti Kutir, M. H. No. 115, Netaji Subhas Road, Marine Drive, Bombay.	Two bullocks with yoke on
3.	Himmatsingh	Municipal House No. 29, Anant Nivas, Ridge Road, Bombay-26.	Lion

Place:— Palanpur

Date:— 11th April, 1969

(Sd.) C. M. JOSHI,
Returning Officer.

[No. 100/GJ-HP/1/69.]

By order.

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1969

एस० एन० 1496.—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचनार्थ किया जाता है—

प्रारूप 7—क

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची ।

[निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 10(1) देखिये]

13—वनसकाथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4
1.	मनुभाई अमरस	द्वितीय मंजिल फ्लेट नं० 3 सर्वनम हाउस, लवर्नम रोड़ वाल्केश्वर, मुम्बई—5	सितारा

1	2	3	4
2	एस० के० पाटिल	शांति कुटीर एम० एच० न० 155, नेत जी सुभाष रोड, मेरी । इ, इव, मुम्बई ।	जुएयुक्त बेलों की जोड़ी
3	हिम्मतसिंह	म्यूजिसाल हाउस नं० 29, अनन्त निवास, रिज रोड, मुम्बई-26	शेर

स्थान : पालनपुर

तारीख 11 अप्रैल, 1969

सी० एम० जोशी,

रिटनिंग आफिसर

[सं० 100/गृज०-लो० स०/1/69.]

आदेश से,

० एम० राजगोपालन, सचिव ।

